

छात्र स्वयं के दस्तावेजों हेतु आनलाईन आवेदन करने से पूर्व अपने पास निम्नलिखित दस्तावेज तैयार रखें :-

10वीं की अंकतालिका, कोई भी पहचान पत्र, जिस किसी दस्तावेज में संशोधन करवाना है उस की मूल प्रति एवं स्कैन किये हुए हस्ताक्षर आदि दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करने से पूर्व स्पष्ट रूप से पोर्टल पर दर्शायी गई साईज में स्कैन करें।

Note:- Candidate must ensure the eligibility before processing the online application. If found ineligible, fees once paid online for any kind of application, will NOT be refunded.

(नोट:- आवेदक किसी भी दस्तावेज हेतु आवेदन से पूर्व स्वयं की पात्रता सुनिश्चित करें। अपात्र आवेदको द्वारा ऑनलाईन जमा शुल्क वापस नहीं किया जावेगा)

INSTRUCTIONS OF ONLINE APPLICATION FOR
DUPLICATE MARKSHEET / VERIFICATION OF DOCUMENTS /
PROVISIONAL CERTIFICATE / ENGLISH VERSION DEGREE/
TRANSCRIPT / CORRECTION IN MARKSHEETS / MIGRATION / NOC

Instructions for English Version Degree (EVD) :

Candidates who have already awarded with Original Degree shouldn't apply for English Version Degree (EVD).

(ऐसे समस्त आवेदक जिन्होंने दीक्षान्त समारोह के उपरान्त सम्बन्धित महाविद्यालय को प्रेषित कर दी गई है / मूल डिग्री आवेदक द्वारा प्राप्त कर ली है, इंग्लिश वर्जन डिग्री के लिए आवेदन नहीं करें ।)

To get any of the Documents such as Duplicate Marksheet / Verification of Documents / Provisional Certificate / English Version Degree/ Transcript / Correction in Marksheets / Migration / NOC, please go through following steps:

1. Visit the website :- <http://online.ruhsraj.org> for online submission of Application.
2. Then make Your account at **USER SIGN UP** Please register yourself as an applicant and verify your email id through link received on your mail.
3. Then login through your E-Mail ID and Password **USER LOGIN**
4. Fill your Application by clicking APPLY ONLINE FORM
5. Select the type of application which you wish to apply

Application For *

Student must submit (By hand or By Post) the Original Document (which has been **applied for Correction**) to University after submission of Online Application. The revised concerned document will be issued only after receiving of that Incorrect Original Document.

Examination Details

Faculty * Course *

Year/Part/Semester * Name of College *

Roll No. * Enrollment No * /

Name of Examination * Exam Type *

Year of Examination Attempt of Examination

Personal Details

Name of Candidate *

Father's Name * Mother's Name *

Mobile No. * E-mail ID *

Correspondence Address

Address *

State District * Pin Code *

Permanent Address

Address *


State * District * Pin Code *

Choice For Delivery of Document *

I hereby declare that the details furnished above are true and correct to the best of my knowledge and belief and I undertake to inform you of any changes therein, immediately. In case any of the above information is found to be false or untrue or misleading or misrepresenting, I am aware that I may be held liable

[Save & Continue](#)

6. Fill the complete form.
7. Upload Documents (a) Address Proof (Front Page) (b) Address Proof (Back Page) (c) Upload Required Marksheet (d) Marksheet of 10th Class (e) Signature. All documents should be legible and on A4 size paper in JPEG format.
8. Make online payment and
9. click on Proceed to Pay



**RAJASTHAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES,
JAIPUR, RAJASTHAN, INDIA**